

Roll No.

Exam Code : N-22

Subject Code—11374

M. Com. EXAMINATION

(Batch 2020 Onwards)

(Regular-UTD & Affiliated Colleges)

(First Semester)

**FINANCIAL ACCOUNTING AND
REPORTING**

MC-104

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 60

Note : Attempt *Five* questions in all, selecting *one* question from each Unit. Q. No. 1 is compulsory. All questions carry equal marks.

प्रत्येक इकाई में से एक प्रश्न चुनते हुए, कुल पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न क्र. 1 अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

1. Write notes on the following : **6×2=12**
- (a) Accounting is a science or an art or both, and why ?

- (b) What steps will you take if a trial balance does not agree ?
- (c) Accounting Process
- (d) How is an account balanced ?
- (e) What is financial distress ?
- (f) How are the provision for bad and doubtful debts and provision for discount on debtors are calculated and how are they shown ?

निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिए :

- (अ) लेखांकन एक विज्ञान या कला या दोनों है, और क्यों ?
- (ब) यदि एक तलपट सहमत नहीं है तो आप क्या कदम उठाएंगे ?
- (स) लेखा प्रक्रिया
- (द) एक खाता कैसे संतुलित है ?
- (इ) वित्तीय संकट क्या है ?
- (फ) डूबत और संदिग्ध ऋणों के प्रावधान और देनदारों पर छूट के प्रावधान की गणना कैसे की जाती है और उन्हें कैसे दिखाया जाता है ?

Unit I

इकाई I

2. Discuss the qualitative characteristics which make financial information useful ? Is it possible to fix relative importance of these characteristics ? Give arguments. 12

वित्तीय सूचना को उपयोगी बनाने वाली गुणात्मक विशेषताओं की चर्चा कीजिए ? क्या इन विशेषताओं के सापेक्ष महत्त्व को निर्धारित करना संभव है ? तर्क दीजिए ।

3. Critically examine the following : 12

- (a) Going Concern Concept
- (b) Separate Business Entity Concept
- (c) Consistency Concept
- (d) Conservatism.

निम्नलिखित का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए :

- (अ) गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट
- (ब) अलग व्यावसायिक इकाई अवधारणा
- (स) संगति अवधारणा
- (द) रूढ़िवाद ।

Unit II

इकाई II

4. Why is a trial balance prepared ? Explain the process of trial balance preparation. 12

तलपट क्यों तैयार किया जाता है ? तलपट तैयार करने की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए।

5. The following is the Trial Balance of Amrit Raj as on 31st March, 2008 : 12

	₹	₹
Capital		2,50,000
Building	3,00,000	
Furniture	26,400	
Scooter	40,000	
Return inward		
and outward	23,000	16,000
Stock on		
1st January, 1981	80,000	
Purchases and Sales	3,38,000	5,60,400
Bad debts	3,000	

Carriage inward	7,000	
General Expenses	12,000	
Bad-Debts Provision		7,000
Bank Loan		50,000
Interest on Bank Loan	3,000	
Commission		9,000
Insurance and Taxes	20,000	
Scooter Expenses	26,000	
Salaries	44,000	
Cash in hand	20,000	
Debtors and Creditors	30,000	80,000
	<u>9,72,400</u>	<u>9,72,400</u>

You are required to prepare the final accounts for the year ending 31st December, 1981 taking into the account the following adjustments :

- (a) Closing stock on 31.12.1981 was valued at ₹ 43,400.
- (b) Commission includes ₹ 3,000 being commission received in advance.
- (c) Salaries have been paid for 11 months.

- (d) Bank loan has been taken at 10% p.a. interest.
- (e) Depreciate building by 5% and Scooter by 15%.
- (f) Write off ₹ 2,000 as further bad debts and maintain bad debts provision at 5% on debtors.

31 मार्च, 2008 को अमृत राज का तलपट निम्नलिखित है :

	₹	₹
पूँजी		2,50,000
भवन	3,00,000	
फर्नीचर	26,400	
स्कूटर	40,000	
आवक और		
जावक वापसी	23,000	16,000
1 जनवरी, 1981		
को स्टॉक	80,000	
खरीद और बिक्री	3,38,000	5,60,400
डूबत ऋण	3,000	

आवक माल भाड़ा	7,000	
सामान्य व्यय	12,000	
डूबत ऋण प्रावधान		7,000
बैंक ऋण		50,000
बैंक ऋण पर ब्याज	3,000	
कमीशन		9,000
बीमा और कर	20,000	
स्कूटर व्यय	26,000	
वेतन	44,000	
हाथ में नकद	20,000	
देनदार और लेनदार	30,000	80,000
	<u>9,72,400</u>	<u>9,72,400</u>

आपको निम्नलिखित समायोजनों को ध्यान में रखते हुए 31 दिसंबर, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अंतिम खाते तैयार करने हैं :

(अ) 31.12.1981 को अन्तिम रहतिया का मूल्य ₹ 43,400 था ।

(ब) कमीशन में ₹ 3,000 अग्रिम रूप से प्राप्त कमीशन शामिल है ।

(स) 11 महीने के वेतन का भुगतान किया गया ।

- (द) बैंक ऋण 10% प्रति वर्ष लिया गया है ।
- (ई) भवन पर 5% और स्कूटर पर 15% मूल्यहास।
- (फ) ₹ 2,000 को आगे के डूबत ऋणों के रूप में बट्टे खाते में डालना और देनदारों पर डूबत ऋणों के प्रावधान को 5% पर बनाए रखना ।

Unit III

इकाई III

6. What is the difference between financial statements and financial reporting ? How are Auditors Report, Directors Report and Corporate Governance Report prepared ? 12

वित्तीय विवरणों और वित्तीय रिपोर्टिंग में क्या अंतर है ? ऑडिटर्स रिपोर्ट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट और कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट कैसे तैयार की जाती हैं ?

7. What are the elements of financial statements ? Explain, in brief, the recognition criteria of elements of financial statements. 12

वित्तीय विवरण के तत्व क्या हैं ? संक्षेप में, वित्तीय विवरणों के तत्वों की मान्यता मानदंड की व्याख्या कीजिए ।

Unit IV

इकाई IV

8. "Window Dressing is done for reducing tax liability of the corporate unit." Comment. 12

“कॉर्पोरेट इकाई की कर देयता को कम करने के लिए विण्डो ड्रेसिंग की जाती है ।” टिप्पणी कीजिए ।

9. What is Quality of Earnings ? Explain its significance in evaluating corporate performance. 12

आय की गुणवत्ता क्या है ? कॉर्पोरेट प्रदर्शन के मूल्यांकन में इसके महत्त्व की व्याख्या कीजिए ।